



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 2, 1979/पौष 12, 1900

No. 4]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 2, 1979/PAUSA 12, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहायिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 3 ईडीसी (पीएन)/78

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1979

विषय — 1-1-1979 से 31-12-1979 तक खुले सामान्य लाइसेंस-
3 के अन्तर्गत कपास, ऊन और मानव निर्मित रेशे के वस्त्र उत्पादों का
नार्वे को और कपास और मानव निर्मित रेशे के वस्त्र उत्पादों का फिनलैंड
को निर्यात करने के लिए योजना।

मि० सं० 2/27/78-ई-1 :—उपर्युक्त विषय पर निर्यात (नियंत्रण) :
सशोधन आदेश सं० ई० (सी)ओ/1977/एएम(86) दिनांक 2-1-79 की
ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. यह योजना कोटा वर्ष 1 जनवरी, 1979 से 31 दिसम्बर, 1979
के लिए कपास, ऊन और मानव निर्मित रेशे के वस्त्र उत्पादों का नार्वे
को और कपास और मानव निर्मित रेशे के वस्त्र उत्पादों का फिनलैंड
को निर्यात करने से सम्बन्धित है जोकि यांत्रिक प्रतिबन्ध के अधीन है
और अनुबंध 'क' और 'ख' में दिए गए व्योरो के अनुसार सांख्यिकी
मोनीटरिंग के अन्तर्गत है।

3. कोटा आबंधन के उद्देश्य के लिए पोटलदान अवधि छः छः महीनों
की दो अवधियों अर्थात् 1 जनवरी, 1979 से 30 जून, 1979 और
1 जुलाई, 1979 से 31 दिसम्बर, 1979 में विभाजित की जाएगी।
वार्षिक कोटे का 60 प्रतिशत प्रथम 6 महीने के दौरान आबंधित किया
जाएगा और शेष 40 प्रतिशत अगले 6 महीनों के दौरान। सूती वस्त्र
निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई द्वारा बनी हुई वस्तुओं किन्तु ऊनी बनी हुई
वस्तुओं को छोड़कर के लिए कोटों का आबंधन करेगी। परिधान निर्यात
संवर्धन परिषद, नई दिल्ली सलाई से जुने हुए ऊनी वस्त्रों का छोड़कर
पोशाकों और मलाई से बुने वस्त्रों के लिए कोटा निर्धारित करेगी
और ऊनी बनी हुई वस्तुओं और ऊनी सलाई से बनी हुई वस्तुओं परन्तु
ऊनी पोशाकों को छोड़कर, के लिए कोटे का निर्धारण उन व ऊनी
निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली द्वारा किया जाएगा। कोटा वर्ष की
प्रथम छः माहों में मांग पर निर्भर करते हुए सरकार द्वारा इस
विभाजन के पुनः समंजन पर विचार किया जा सकता है।

4. बनी हुई वस्तुओं के लिए कोटे का 50 प्रतिशत का निर्धारण
तैयार माल के लिए पहले आए तो पहले पाए के आधार पर किया
जाएगा और शेष 50 प्रतिशत का निर्धारण पक्की संविदाओं के लिए
पहले आए सो पहले पाए के आधार पर किया जाएगा। आवश्यकता पर
निर्भर करते हुए तैयार माल निर्धारण और पक्की संविदा निर्धारण
के संबंधित अनुपात का समंजन जब कभी सरकार आवश्यक समझे
कर सकती है।

5. पोशाकों और सलाई से बने हुए वस्त्रों के लिए कोटे के 40 प्रतिशत का निर्धारण तैयार माल के लिए पहले आए सो पहले पाए के आधार पर और शेष 60 प्रतिशत पक्की संविदाओं के लिए पहले आए सो पहले पाए के आधार पर किया जाएगा। इन दोनों पद्धतियों में से प्रत्येक के अंतर्गत कोटे के 20 प्रतिशत का निर्धारण उच्चतर मूल्य की मदों के लिए किया जाएगा। यदि उच्चतर कीमत निर्धारण का भाग पहले समाप्त हो जाता है तो उच्चतर कीमत वाला माल स्वाभाविक रूप से अन्य माल के साथ अन्य भाग में पात्रता प्राप्त करेगा। इस प्रयोजन के लिए न्यूनतम मूल्य के दो आधार होंगे—एक का संबंध 20 प्रतिशत आबंटन द्वारा उच्च मूल्य मदों के साथ और दूसरा शेष 80 प्रतिशत आबंटन के द्वारा आने वाली मदों के लिए न्यूनतम मूल्य का आधार होगा। सूती पोशाक और बने हुए वस्त्रों के लिए कोटा आबंटन, साखपत्र शर्तों पर किया जाएगा। तैयार माल के आबंटन के लिए पहले आए सो पहले पाए के आधार पर साखपत्र कोटा पृष्ठांकन के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए और पक्के आदेश आबंटन के लिए पहले आए सो पहले पाए के आधार पर साखपत्र कोटा आबंटन के 60 दिनों के भीतर अथवा पोतलदान के लिए कोटा पृष्ठांकन से पहले जो भी इनमें पहले आता हो, प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर कोटा आबंटन स्वतः समाप्त समझा जाएगा।

6. पहले आए सो पहले पाए के आधार पर तैयार माल के कोटा आबंटन के मद्दे पोतलदान कोटा पृष्ठांकन की दिनांक से 10 दिनों के भीतर प्रभावी होगा। लेकिन कई मामलों में उचित कारणों के लिए वस्त्र आयुक्त अथवा उसके प्रतिनिधि से विशिष्ट अनुमोदन पर यह अवधि बढ़ाई जा सकती है।

7. पहले आए सो पहले पाए के आधार पर पक्के आदेश के आबंटन के मामले में, यदि प्रस्ताव अंतिम तिथि तक उपलब्ध कोटा से अधिक है तो इस उद्देश्य के लिए इन प्रस्तावों में से एक पसन्द की जानी चाहिए तो एक मूल्य के आधार पर चुनाव किया जाएगा। ऐसे अवसर पर उच्च एक मूल्य का संलक्षण होगा। उस मामले में, अंतिम तिथि की बच्चों की पोशाकों के लिए विशेष आबंटन पर विचार किया जाएगा और सुविधा प्रदान की जाएगी।

8. जहां कहीं सूती, ऊनी और हाथ से बने हुए वस्त्रों के मद्दे के लिए कोटा सम्मिलित किया जाता है तो ऐसे सम्मिलित कोटा का 0.5 प्रतिशत भाग प्रत्येक ऊनी पोशाकों और मानव निर्मित रेशों की पोशाकों के लिए नियुक्त किया जाता है। फिर भी इस पर पुनः विचार किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर सरकार द्वारा इन मदों के लिए आरक्षण में आगे बढ़ि अथवा कोटे की जा सकती है।

9. नार्थ और किमलैण्ड में आयातों, इस प्रयोजन के लिए, निर्धारित निम्न एवं शर्तों को पूरा करने पर सम्बन्धित निर्यात संवर्द्धन परिषद का उत्तरी प्राधिकृत अन्तरवर्ती प्रतिनिधियों द्वारा पृष्ठांकन के समय जारी किए गए निर्यात प्रमाण-पत्र के आधार पर आयातक को जारी किए गए आयात लाइसेंस के मद्दे अनुमित की जाएंगी।

10. जब कभी प्रेषित माल पोतलदान के लिए तैयार हो तो निर्यातक आवश्यक पोतलदान दस्तावेज (जिसमें पोतलदान बिलों की दो प्रतियां शामिल हैं) और दो प्रतियों में आवेदन-पत्र जिसमें पोतलदान के अंतर्गत माल का विवरण दिया गया हो, इस उद्देश्य के लिए मनोनीत निर्यात संवर्द्धन परिषद अथवा इसके अन्तरवर्ती पत्तन प्रतिनिधियों के साथ कोटा प्रमाण-पत्र जोकि कोटा पृष्ठांकन प्राप्त करने और आवश्यक निर्यात प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। इसके प्रस्ताव पोतलदान बिलों और अन्य कार्यवाही को पूर्ण करने के लिए दस्तावेज सीमाशुल्क विभाग को भेजने चाहिए। तैयार पोशाकों के मामले में पोतलदान दस्तावेज जिसमें

पोतपरिवहन बिल भी शामिल है इस उद्देश्य के लिए मनोनीत निर्यात संवर्द्धन परिषद अथवा इसके अन्तरवर्ती पत्तन प्रतिनिधियों को पोतलदान के समय पत्तन पर सीमा शुल्क विभाग द्वारा पोतलदान बिल अंकित करने से पहले कोटा पृष्ठांकन के लिए भी प्रस्तुत किए जाएंगे। इन सभी मामलों में पोतवणिकों को उस सम्बद्ध नियति संवर्द्धन परिषद अथवा इसके अन्तरवर्ती पत्तन प्रतिनिधियों को सीमा शुल्क विभाग से पोत परिवहन बिलों की संख्या और दिनांक एकत्र करने के बाद सूचित करना होगा।

11. निर्यात प्रमाण-पत्र केता को लिए आवश्यक है और अतः निर्यात परिषद से तैयार करने के पश्चात् पोतवणिक का अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ केता को प्रेषित करना पड़ेगा।

12. कोटा आबंटन से सम्बन्धित मामलों में वस्त्र आयुक्त बम्बई अथवा उसके द्वारा मनोनीत एक अधिकारी को विन-अप्रीजिड देख-रेख करनी होगी। वस्त्र आयुक्त अध्यक्ष के रूप में और सम्बन्धित विषय निर्यात, संवर्द्धन परिषदों के प्रतिनिधियों के साथ एक समन्वय समिति समय-समय पर स्थिति की पुनरीक्षा करेगी।

13. पक्के वायदों पर पहले आए सो पहले पाए के आधार पर कोटा आबंटन के लिए आवेदक को आवेदन पत्र के साथ पोशाकों और बने हुए वस्त्रों के लिए कोटा आबंटन की जहाज पर निःशुल्क मूल्य का 10 प्रतिशत भाग के लिए निष्पादन बाण्ड प्रस्तुत करना होगा। पहले आए सो पहले पाए के आधार पर तैयार माल के कोटा आबंटन के मामले में एक रूपया प्रति नग की दर से अथवा जहाज पर निःशुल्क मूल्य का 10 प्रतिशत अग्रिम धन जो भी इनमें अधिक हो, कोटा पृष्ठांकन के समय आवेदक को जमा कराना पड़ेगा। कोटा आबंटन/कोटा पृष्ठांकन की वैध अवधि के दौरान यदि उपयोग 90 प्रतिशत से कम नहीं है तो निर्यात का साक्ष्य प्रस्तुत करने पर जमा किए हुए बाण्ड का निष्पादन बाण्ड का पूर्ण धन वापस कर दिया जाएगा। यदि कोटा आबंटन का उपयोग 90 प्रतिशत से कम है तो निष्पादन बाण्ड के पूर्ण धन पर जुर्माना किया जाएगा और जमा किया हुआ पूर्ण अग्रिम धन जमा किया गया समझा जाएगा। इसके प्रतिरिक्त यदि अग्रिम धन कोटा आबंटन के 25 प्रतिशत से अधिक है तो ऐसे ग्राही के लिए आगे कोटा आबंटन की अस्वीकृति पर विचार किया जा सकता है। लेकिन प्रधान शक्ति की शर्तों में उचित छूट पर विचार किया जा सकता है।

14. निर्यात भारत में किसी भी पत्तन से अनुमित किया जाएगा।

15. निर्यात संवर्द्धन परिषदों के पते इस प्रकार हैं :—

(1) सूती वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद

"इंजीनियरिंग सेंटर",

9-मैथ्यू रोड, पांचवीं मंजिल,

बम्बई-400004

(2) परिधान निर्यात संवर्द्धन परिषद,

महयोग बिल्डिंग, चौथी मंजिल,

58-नेहरू प्लेस,

नई दिल्ली-110019

(3) ऊन और ऊनी माल निर्यात संवर्द्धन परिषद

714-अशोक इस्टेट,

24, बाराखम्भा रोड,

नई दिल्ली-110001

16. वे व्यक्ति जिन्हें उपर्युक्त व्यवस्थाओं के अनुसार कोटा दिया गया है, परन्तु जिन्होंने कोटे का पूरा उपयोग नहीं किया है उन्हें आगामी कोटा प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा। इसके साथ-साथ इस बारे में उन पर अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है।

17. पूर्वोक्त पैरों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित नीति 1978-79 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे :—

क्रम सं०	पृष्ठ सं०	संदर्भ	संशोधन
1.	30	कालम 3 में क्रम सं० 70(10)	वर्तमान अध्याय सं० 1 इस प्रकार पढ़ने के लिए संशोधित की जाएगी "द्वारा" कोटा आइटम के सामने. (क) वस्त्र और निर्मित वस्तुओं के लिए सूती वस्त्र निर्यात संबंधन परिषद् : (ख) पोशाकों और सलाई से बने हुए पहनावों किन्तु ऊनी, सलाई से बने हुए पहनावों को छोड़कर, के लिए परिधान निर्यात संबंधन परिषद्। (ग) बने हुए ऊनी वस्त्रों और ऊनी सलाई से बने हुए पहनावे किन्तु ऊनी पोशाकों को छोड़कर, के लिए ऊन और ऊनी माल निर्यात संबंधन परिषद्। पोत परिवहन जिलों पर पृष्ठांकन के द्वारा। (घ) विद्यमान प्रविष्टि निम्नलिखित अनुसार पढ़ी जाएगी :— "कपास, ऊन और मानव निर्मित रेशे से बने वस्त्र उत्पादों का नार्थ को और कपास तथा मानव निर्मित रेशे से बने वस्त्र उत्पादों का फिनलैंड को निर्यात।"

का० खं० शेषात्रि, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

सार्वजनिक सूचना सं० 3 ई टी सी (पी एन)/79 दिनांक 2-1-1979 का अनुबन्ध "क"

1. नार्थ

पृष्ठ-1

बी टी एन संख्या	विवरण*
1	2
1 60 04.110—190	पुरुषों और लड़कों, महिलाओं और
एक्स 60.04.710—790	लड़कियों और बच्चों के पहनने
एक्स 60.04.810—890	के लिए, सलाई से बने हुए
एक्स 60.04.910—990	शर्ट्स ब्लाउज और टी-शर्ट्स
एक्स 60.05.821—892	

1	2
2. एक्स 60.04.710—790 एक्स 60.04.810—890 एक्स 60.04.910—990	पुरुषों और लड़कों, महिलाओं और लड़कियों और बच्चों के पहनने के लिए, सलाई से बने हुए ब्रण्डर गार्मेंट्स (टी शर्ट्स के अतिरिक्त)।
3. एक्स 60.05.320—390 एक्स 60.05.821—892	पुरुषों और लड़कों, स्त्रियों और लड़कियों और बच्चों के पहनने के लिए सलाई से बने हुए जैकेट्स, जम्पर्स, स्वेटर्स, काडि-गर्स, पुओवर्स
4. एक्स 61.01.001—009 एक्स 61.01.088—089 61.01.220—290 एक्स 61.01.320—390 61.01.420—490 एक्स 61.01.620—690 एक्स 61.01.920—990 एफ टी 61.02.001—009 एक्स 61.02.083—089 61.02.220—290 एक्स 61.02.321—341, 351, 361, 391 एक्स 61.02.720—790 एक्स 61.02.920—990	पुरुषों और लड़कों, स्त्रियों और लड़कियों के पहनने के लिए बने हुए जैकेट्स, एनोराक्स, पायकास, स्की जैकेट्स, बिलिट्टेड जैकेट्स, वन-पीस स्की सूट्स और उर्मा प्रकार का सामान
5. एक्स 61.01.001—009 एक्स 61.01.083—089 एक्स 61.03.320—390 61.01.520—590 एक्स 61.01.920—990 एक्स 61.02.001—009 एक्स 61.02.083—089 एक्स 61.02.321, 341, 351, 361, 391 61.02.620—690 एक्स 61.02.920—990	पुरुषों और लड़कों, स्त्रियों और लड़कियों के पहनने के लिए बनी हुई स्लैक्स जीन्स, ट्राउजर्स और स्की पेन्ट्स (शर्ट्स के अतिरिक्त)
6. एक्स 61.02.910—990	बच्चों के ऊपर पहनने के बने हुए वस्त्र
7. 61.02.520—590 एक्स 61.02.920—990 एक्स 61.04.220—290	स्त्रियों और लड़कियों के पहनने के लिए बने हुए ब्लाउज और जम्पर्स
8. 61.03.120—199 एक्स 61.01.920—990 एक्स 61.03.920—990	पुरुषों और लड़कों के पहनने के लिए बनी हुई शर्ट्स
9. 62.02.121—199	बुनी हुई विस्तर की लिनन
10. 60.03.110—990	पुरुषों और लड़कों, महिलाओं और लड़कियों और बच्चों के पहनने के लिए, सलाई से बने हुए स्ट्राकिंग और साक्स

*यह सूती, ऊनी और मानव-निर्मित रेशों के लिए लागू होता है।

*उपर्युक्त पुप 1 को सभी सर्वे परिमाणायक प्रतिबंध के अधीन है।

सूच-2

1	2
11. 60.02 60.06.920—990	सलाई से बुने हुए वस्त्र
12. 60.05.120—190 60.05.620—690	पुरुषों और लड़कों, महिलाओं और लड़कियों और बच्चों के पहनने के लिए, सलाई से बुने हुए, कास्ट्यूम, ड्रेस, सूट, स्कर्ट, ट्राउजर्स, शर्ट्स, यूनिफार्म, रोम्पर्स और ओवर घाल
13. 60.04.210—290	सलाई से बुने हुए रात को पहनने के वस्त्र
14. 60.05.220—290	तेराकी के समय पहने जाने वाले, सलाई से बुने हुए वस्त्र
15. एक्स 61.01.001—009 एक्स 61.01.083—089 एक्स 60.01.620—690 एक्स 61.01.920—990 एक्स 61.01.001—009 एक्स 61.02.083—089 एक्स 61.02.720—790 एक्स 61.02.920—990	पुरुषों और लड़कों, महिलाओं और लड़कियों के पहनने के लिए, ओवर घाल, संरक्षक वस्त्र (जैकेट और ट्राउजर्स से भिन्न) वारिश में पहने जाने वाले वस्त्र, ऊपर पहनी जाने वाली पोशाक मासिक संसेचित या लेपित वस्त्र और अन्य ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र जो अन्य कहीं विशिष्ट नही हैं।
16. एक्स 61.01.001—009 61.01.120—190 एक्स 61.01.920—990 एक्स 61.02.001—009 61.02.120—190 एक्स 61.02.920—990	पुरुषों और लड़कों, स्त्रियों और लड़कियों के पहने जाने वाले अलस्टर्स, केप्स, ओवर कोट और कोट, जिसमें रखड़ीकृत कार कोट और रेनकोट शामिल हैं।
17. 61.02.322, 342, 352, 362, 392 एक्स 61.02.720—790 एक्स 61.02.920—990	महिलाओं और लड़कियों द्वारा पहने जाने वाली बुनी हुई ड्रेस, हाऊस कोट, फाक और गाउन
*18. एक्स 61.02.321, 341, 351, 361, 391 61.02.420—490 एक्स 61.02.920—990	महिलाओं और लड़कियों द्वारा पहने जाने वाले बुने हुए स्कर्ट, जिसमें ट्राउजर्स और स्कर्ट भी शामिल हैं।
19. 61.02.720—790 61.02.820—890	पुरुषों और लड़कों, महिलाओं और लड़कियों के पहने जाने वाले बुने हुए शर्ट्स, तेराकी की पोशाक, शर्ट स्पोर्ट्स, ट्राउजर्स और सन सूट्स
20. 61.04.120—190 एक्स 61.04.220—290	महिलाओं और लड़कियों की बुनी हुई प्रान्तरिक और रात को पहने जाने वाली पोशाकें
21. 61.03.220—290 61.03.920—990	पुरुषों और लड़कों के लिए नीचे पहनने के रात को पहने जाने वाले बुने हुए वस्त्र

1	2
22. एक्स 61.04.920—990	शिथुओं के लिए नीचे पहनने के लिए रात को पहने जाने वाले बुने हुए वस्त्र
23. 61.07.000	टाइया
24. 61.10.001—003	वस्त्र
25. 65.05.901—909	छिड़ गियर

*सूच 2 की क्रम सं० 18 के सामने आने वाली मर्चें मात्रा प्रतिबंधों के अधीन हैं और सूच 2 की शेष मर्चें सांख्यिकीय प्रबंध (मार्नेटिंग) के अधीन हैं।

अनुसंध—ख

2. फिनलैण्ड

तेयार टैरिफ वर्गीकरण सं०	व्योरा
61.02.502	स्त्रियों और लड़कियों के लिए, सूती और मानव-निर्मित रेशों से बुने हुए क्वाउज
505	
506	
61.03.102	पुरुषों और लड़कों के लिए सूती और मानव-निर्मित रेशों से बुनी हुई शर्ट्स
103	
105	
106	
एक्स 109	
62.02.115	लिनन की बिस्तर की चदर जिसमें 50 प्रतिशत से कम वजन का सूत हो।
116	
117	
119	

उपर्युक्त सभी मर्चें मात्रा प्रतिबंध के अधीन हैं।

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO 3-ETC(PN)/79

New Delhi, the 2nd January, 1978

Subject.—Scheme for exports under OGL 3 of textile products made from cotton, wool and man-made fibres to Norway and from cotton and man-made fibres to Finland from 1st January, 1979 to 31st December, 1979.

F. No. 2/27/78-EI.—Attention is invited to the Exports (Control) Amendment Order No. E(C)O, 1977/AM(86), dated 2nd January, 1979, on the above subject.

2. The scheme relates to exports of textiles products made from Cotton, wool and man-made fibres to Norway and from cotton and man-made fibres to Finland which are subject to quantitative restraint and under statistical monitoring as per details given in Annexures 'A' and 'B' for the quota year from 1st January, 1979 to 31st December, 1979.

3. For the purposes of quota allotment, the shipment period will be divided into two six-monthly periods, i.e. from 1st January, 1979 to 30th June, 1979 and from 1st July, 1979 to 31st December, 1979. 60 per cent of the annual

quotas will be allocated during the first six months and the rest 40 per cent during the next six months. The Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay will allocate quotas for made-ups excluding woollen made-ups. The Apparels Export Promotion Council, New Delhi will allocate quota for garments and knitwear excluding woollen knitwear and the allocation for woollen made-ups and woollen knitwear but excluding woollen garments will be made by the Wool and Woollens Export Promotion Council, New Delhi. Depending upon the demand in the first-half of the quota year, re-adjustments of this division may be considered by the Government.

4. For made-up articles, 50 per cent of the quota will be allocated on first-come, first-served basis for ready goods and the rest 50 per cent on first-come, first-served basis for firm contracts. Depending upon the need, adjustment of the related proportion of ready goods allocation and firm contracts allocation may be made by the Government whenever it is found necessary.

5. For garments and knitwear, 40 per cent of the quota will be allocated on first-come first-served basis for ready goods and the rest 60 per cent on first-come first-served basis for firm contracts. Under each of these two systems, 20 per cent of the quota will be allocated for higher value items. In case the portion for higher price allocation gets exhausted first, the goods with higher price will naturally have the eligibility in the other portion alongwith the other goods. For this purpose, there will be two sets of floor prices—one relating to higher value items covered by 20 per cent allocation and the other basic floor price for items covered by the remaining 80 per cent of the allocation. Quota allocation for cotton garments and knitwear will be made on LC terms. For first-come first-served ready goods allocation, LC should be produced at the time of quota endorsement and for first-come first-served firm contract allocation, LC should be produced within 60 days of quota allocation or before quota endorsement for shipment, whichever is earlier, failing which quota allocation will be automatically deemed to lapse.

6. Shipments against quota allocations on first-come first-served ready goods basis will have to be effected within 10 days from the date of quota endorsement. However, this period can be extended in exceptional cases for valid reasons on specific authorisation from the Textile Commissioner or his representative.

7. In the case of first-come first-served firm contract allocation, if the offers are more than the quota available on the terminal date, a choice among offers may have to be made and, for this purpose, selection will be made on the basis of unit price. The higher unit price will be the criterion in such an eventuality. In that case, on the terminal date special allocation for children's garments will be considered and provided.

8. Wherever the quotas for cotton, woollen and man-made fibres items are combined, 0.5 per cent of such combined quotas have been reserved each for woollen garments and man-made fibres garments. This is, however, subject to review and, if necessary, a further enhancement or reduction in the reservation for these items may be made by Government. 50 per cent of the quota has been reserved for handloom items. This is, however, subject to review depending upon the trend of demand.

9. The imports into Norway and Finland will be permitted against the import licence issued to the importer on the basis of the export certificate issued at the time of endorsement by the Export Promotion Council concerned or its authorised up-country representatives on fulfilment of the terms and conditions laid down for the purpose.

10. Whenever the consignment is ready for shipment, the exporter shall submit the necessary shipping documents (including shipping bills in duplicate) and proforma application in duplicate covering the details of goods under shipment to the Export Promotion Council designated for this purpose or to its up-country port representatives alongwith quota certificate for obtaining quota endorsement and for issuing the necessary export certificate. Thereafter the documents shall be submitted to the Customs for completion of the shipping bills and other formalities. In the case of readymade garments the shipping documents including shipping bills will

also be submitted to the Export Promotion Council designated for this purpose or its up-country port representatives for quota endorsement before the shipping bills are noted by the Customs at the port of shipment. In all these cases the shippers will be required to inform the Export Promotion Council concerned or its up-country port representatives from whom the quota endorsement is obtained, the number and the date of shipping bills after the same are collected from the Customs.

11. The export certificate is meant for the buyer and hence the same after obtaining from the Council has to be forwarded by the shipper to his buyer alongwith other relative documents.

12. The Textile Commissioner, Bombay, or an officer designated by him will have a day-to-day supervision over the matters relating to quota allocation. A Co-ordination Committee with the Textile Commissioner as the Chairman and representatives of various Export Promotion Councils concerned will review the situation from time to time.

13. For garments and knitwear, performance bond for a value of 10 per cent of the f.o.b. value of quota allotment will have to be submitted by the applicant alongwith the application for quota allotment on first-come, first-served firm contract basis. In the case of quota allocation on first-come, first-served ready goods basis, earnest money at the rate of Re. 1 per piece or 10 per cent of the f.o.b. value, whichever is higher, will have to be deposited by the applicant at the time of quota endorsement. If the utilisation within the validity period of quota allotment/quota endorsement is not less than 90 per cent, full amount of earnest money deposit/performance bond will be refundable on production of evidence of export. If the utilisation of quota allocation is less than 90 per cent, penalty for the full amount of the performance bond will be imposed, and the full earnest money deposit will be liable to be forfeited. Further, if the surrender of quota is in excess of 25 per cent of allotment, refusal of further quota allotment for such allottees may be considered. However, in conditions of force majeure, appropriate exemptions may be considered.

14. Exports will be allowed from any port in India.

15. The addresses of the Export Promotion Councils are as follows :

- (i) The Cotton Textiles Export Promotion Council, 'Engineering Centre,' 9, Mathew Road, 5th Floor, Bombay 400 004.
- (ii) Apparels Exports Promotion Council, Sahayog Building, 4th Floor, 58, Nehru Place, New Delhi 110019.
- (iii) Wool and Woollens Export Promotion Council, 714, Ashoka Estate Barakhambha Road, New Delhi 110001.

16. Persons to whom quotas are allotted in accordance with the above arrangements but who do not utilise them fully would be liable to dis-qualification from getting future quotas without prejudice to any other action they may be taken in this behalf.

17. In view of the foregoing paragraphs the following amendments shall be made in the Export Policy 1978-79 :

S. No.	Page No.	Reference	Amendment
1	2	3	4
1	30	S. No. 7	The existing remark No. 1 shall be (x) in column amended to read as under
		3.	"Against quota allotment by :
		(a)	The cotton Textile Export Promotion Council for fabrics and made-ups,
		(b)	The Apparels Export Promotion Council, for garments and knitwears excluding woollen knitwear,

1	2	3	4	1	2
			(c) Wool and Woollen Export Promotion Council for woollen fabrics made-ups & woollen knitwear but excluding woollen garments by endorsement on shipping bills".	6. ex 61.02.910—990	Woven outergarments, infants' wear.
2	30	S.No. 70(x) Column 2.	The existing entry shall be read as under :— "Export of Textile Products made from Cotton wool and man-made fibre to Norway and from cotton and man-made fibre to Finland".	7. 61.02.520—590 ex 61.02.920—990 ex 61.04.220—290	Woven blouses and jumpers women's and girls' wears.
				8. 61.03.120—199 ex 61.01.920—990 ex 61.03.920—990 ex 61.01.920—990	Woven shirts, men's and boys' wear.
				9. 62.02.121—199	Woven bed linen
				10. 60.03.110—990	Knitted stockings and socks, men's and boys', women's and girls' and infants wear.

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports.

ANNEXURE A

1. NORWAY

Group I

BTN Nos.	Description*
1	2
1. 60.04.110—190 ex 60.04.710—790 ex 60.04.810—890 ex 60.04.910—990 ex 60.05.821—892	Knitted shirts, blouses and T-shirts, men's and boys', women's and girls' and infants' wear.
2. ex 60.04.710—790 ex 60.04.810—890 ex 60.04.910—990	Knitted undergarments (except T-shirts), men's and boys', women's and girls' and infants' wear.
3. ex 60.50.320—390 ex 60.05.821.892	Knitted jackets, jumpers sweaters cardigans, pullovers men's and boys', women's and girls' and infants' wear.
4. ex 61.01.001—009 ex 61.01.083—089 61.01.220—290 ex 61.01.320—390 61.01.420—490 ex 61.01.620—690 ex 61.01.920—990 ex 61.02.001—009 ex 61.02.083—089 61.02.220—290 ex 61.02.321, 341, 351, 361, 391 ex 61.02.720—790 ex 61.02.920—990	Women jackets, anoraks, parkash, ski jackets, quilted jackets, one-piece ski suits and the like, men's and boys' and girls' wear.
5. ex 61.01.001—009 ex 61.01.083—089 ex 61.01.320—390 61.01.520—590 ex 61.01.920—990 ex 61.02.001—009 ex 61.02.083—089 ex 61.02.321, 341, 351, 361, 391 61.02.620—690 ex 61.02.920—990	Women slacks, jeans, trousers and ski pants (except shorts), men's and boys' and women's and girls' wears.

* This applies to products of cotton, wool and man-made fibres.

* All above items of group I are subject to quantitative restraints.

Group II

1	2
11. 60.02 60.06.920—990	Knitted gloves
12. 60.05.120—190 60.05.620—690	Knitted Costumes, dresses, suits, skirts, trousers, shorts, uniforms, rompers and overalls, men's and boys', women's and girls' and infants' wear.
13. 60.04.210—290	Knitted night garments.
14. 60.05.220—290	Knitted swimwear.
15. ex 61.01.001—009 ex 61.01.083—089 ex 61.01.620—690 ex 61.01.920—990 ex 61.02.001—009 ex 61.02.083—089 ex 61.02.720—790 ex 61.02.920—990	Overalls, protective garments (other than jackets and trousers) rainwear, outer garments impregnated or coated and other outer garments n.e.s. men's and boys' and women's and girls' wear.
16. ex 61.01.001—009 61.01.120—190 ex 61.01.920—990 ex 61.02.001—009 61.02.120—190 ex 61.02.920—990	Usters, capes, overcoats and coats incl. car coats and rain coats not rubberized, men's and boys' and women's and girls' wear.
17. 61.02.322, 342, 352, 362, 392 ex 61.02.720—790 ex 61.02.920—990	Woven dresses, housecoats, frocks and gowns, women's and girls' wear.

1

2

ANNEXURE B

@ 18. ex 61.02.321, 341, 351, 361, 391	Woven skirts, incl. trousers skirts, women's and girls' wear.
61.02.420—490	Woven shorts, swimwear, short sports trousers and sun suits,
ex 61.02.920—990	
19. 61.01.720—790	men's and boy's and women's and girls' wear.
61.02.820—890	
20. 61.04.120—190	Woven under night garments, women's and girls, wear.
ex 61.04.220—290	
21. 61.03.220—290	Woven under and night garments men's and boys' wear.
61.03.920—999	
22. ex 61.04.920—990	woven under—and night garments infants wear.
23. 61.07.000	ties.
24. 61.10.001—003	Gloves.
25. 65.05.901—909	Head gear.

(a) Items against serial number 18 of group II are subject to quantitative restraint and the remaining items of group II are under statistical monitoring.

II FINLAND

Finish tariff	Description
Classification No.	
61.02.502	Women's and Girls' woven blouses of cotton and man made fibres.
505	
506	
61.03.102	Men's and boys' woven shirts of cotton and man-made fibres.
103	
105	
106	
ex 109	
62.02.115	Bed linen containing not less than 50 per cent by weight of cotton.
116	
117	
119	

*All above items are subject to quantitative restraint.

